



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 फाल्गुन 1945 (श10)  
(सं0 पटना 269) पटना, शुक्रवार, 15 मार्च 2024

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय  
(समाज कल्याण विभाग)

अधिसूचना

14 मार्च 2024

सं० 01/दि०सं०नि०-यो०-05/2023 (खंड) 337--दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 28 अंतर्गत दिव्यांगजनों के वासन एवं पुनर्वास को बढ़ावा देने तथा उनके सशक्तिकरण के लिए अन्य आवश्यक मुद्दों पर अनुसंधान कराने हेतु अधिनियम, 2016 की धारा 6(2) के तहत दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए राज्य स्तर पर समिति गठित किये जाने का प्रावधान है।

2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-101(2)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के अध्याय -II नियम -3 के अनुसार दिव्यांगता से संबंधित अनुसंधान हेतु अनुमति देने के लिए राज्य समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र० सं०	बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 में निहित प्रावधान	नाम एवं पदनाम	समिति में पद
(i)	विज्ञान या औषधि अनुसंधान के क्षेत्र में वृहत अनुभव रखने वाला विख्यात व्यक्ति -	प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना ।	पदेन अध्यक्ष
(ii)	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार -	डॉ० एन० एन० राय, निदेशक प्रमुख (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना ।	सदस्य
(iii)	रजिस्ट्रीकृत संगठनों से प्रतिनिधि के रूप में विशेषज्ञ -	(i) श्री जश्लोक, उप निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना ।	सदस्य (बौद्धिक दिव्यांगता)
		(ii) श्रीमती अदिति प्रिया, सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना ।	सदस्य (बहुदिव्यांगता)

क्र० स०	बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 में निहित प्रावधान	नाम एवं पदनाम	समिति में पद
		(iii) श्री प्रभाकर पटेल, सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना ।	सदस्य (मानसिक व्यवहार)
		(iv) श्री फजले रब्बानी सिद्दीकी, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, PwD, 'सक्षम', पटना ।	सदस्य (शारीरिक दिव्यांगता)
(iv)	निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना	निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना	सदस्य सचिव

**3. इस समिति का कार्य निम्नवत् होगा :-**

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत दिये गए अधिकारों का उपयोग तथा संबंधित अधिनियम एवं नियमावली में दिये गये प्रावधानों के आलोक में कार्य करेगी ।
  - संबंधित अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत दिव्यांगता अनुसंधान के लिए नीति निर्धारण एवं आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन की अनुशंसा करेगी ।
  - दिव्यांगजनों के लाभ के लिए आवास और पुनर्वास और ऐसे अन्य मुद्दे जो आवश्यक समझे जाएं पर व्यक्तियों या संस्थानों के माध्यम से अनुसंधान और विकास का कार्य आरंभ कराएगी ।
  - कोई दिव्यांगजन किसी अनुसंधान का विषय नहीं होगा सिवाय तब जब अनुसंधान में उसके शरीर पर भौतिक प्रभाव अंतर्वलित हो ।
  - सरकार द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य ।
- अध्यक्ष किसी विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रिती के रूप में आमंत्रित कर सकेंगे ।
  - गैर-शासकीय सदस्य और विशेष आमंत्रिती राज्य सरकार के समूह 'क' अथवा उसके समकक्ष अधिकारियों को अनुज्ञेय यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के पात्र होंगे ।
  - नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि उनके पद धारण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की होगी । यह आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।
  - इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार-राज्यपाल का आदेशानुसार,  
कुमारी सीमा,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।  
बिहार गजट (असाधारण) 269-571+1000-डी0टी0पी0 ।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>